



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 04.12.2022

1-थाना दादरी पुलिस द्वारा ठगी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अंगूठी पीली धातू, 02 एटीएम कार्ड, अवैध हथियार, 18,500 रूपये व एक मोटरसाइकिल बिना नम्बर (घटना में प्रयुक्त) बरामद।

दिनांक 03.12.2022 को थाना दादरी पुलिस द्वारा ठगी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1.जावेद पुत्र अनवर निवासी मोहल्ला नई आबादी, मोटे के स्कूल के पास, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर 2.जावेद उर्फ जावर पुत्र मुस्तफा उर्फ पटेल मूल निवासी रोशनपुर, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता मोहल्ला मुहम्मद खानी, कस्बा बिलासपुर, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के दादरी टी प्वाइन्ट बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 02 अंगूठी पीली धातू, 02 एटीएम कार्ड, 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक कारतूस जिन्दा ,315 बोर, 01 अवैध तमंचा .32 बोर, 18,500 रूपये व एक मोटरसाइकिल बिना नम्बर (घटना में प्रयुक्त) बरामद की गई है।

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उन्होने दिनांक 30.11.2022 को कन्नौज जा रहे दो लडको से ठगी व धोखाधडी कर उनका मोबाइल एवं एटीएम ले लिये थे और उस फोन के जरिये फोन-पे के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर दादरी में एक ज्वैलर से करीब 66,500 में दो सोने की अंगूठी खरीद ली थी ये वही अंगूठी है, उपरोक्त घटना के संबंध में थाना दादरी पर मु0अ0सं0 575/22 धारा 420,406 आईपीसी पंजीकृत है।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.जावेद पुत्र अनवर निवासी मोहल्ला नई आबादी, मोटे के स्कूल के पास, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
- 2.जावेद उर्फ जावर पुत्र मुस्तफा उर्फ पटेल मूल निवासी रोशनपुर, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता मोहल्ला मुहम्मद खानी, कस्बा बिलासपुर, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 575/2022 धारा 420/406/411 भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 580/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर बनाम जावेद पुत्र अनवर।
- 3.मु0अ0सं0 581/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर बनाम जावेद पुत्र मुस्तफा।

बरामदगी का विवरण:

- 1.जावेद के कब्जे से 01 अंगूठी पीली धातू, 01 एटीएम कार्ड, 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक कारतूस जिन्दा .315 बोर, 9000-/ रूपये व एक मोटरसाइकिल बिना नम्बर बरामद।

2.जावेद उर्फ जावर के कब्जे से 01 अंगूठी पीली धातू, 01 एटीएम कार्ड, 01 अवैध तमंचा .32 बोर 9500/-रूपये बरामद।



#थाना फेस-1 पुलिस द्वारा अपने घर का रास्ता भटककर लावारिस अवस्था में घूम रही 04 वर्षीय बच्ची के परिजनों को तलाश कर सकुशल बच्ची को सुपुर्द किया गया।

दिनांक 04/12/2022 को थाना फेस-1 नोएडा पुलिस को गश्त के दौरान सेक्टर-9 जे.जे. कॉलोनी में एक 04 वर्षीय बच्ची लावारिस अवस्था में भटकते हुए मिली जो अपने घर का रास्ता भूलकर परेशान घूम रही थी। पुलिसकर्मियों द्वारा तुरंत उक्त बच्ची को अपनी अभिरक्षा में लिया गया एवं आस-पास बच्ची के परिजनों के बारे में पता लगाने का काफी प्रयास किया गया। अथक प्रयास के बाद जानकारी हुई की उक्त बच्ची सेक्टर-8 में रहती है, जिसपर पुलिसकर्मियों द्वारा तुरंत बच्ची के परिजनों से सम्पर्क किया गया। सूचना मिलते ही परिजन तुरंत मौके पर आ गए तथा अपनी खोयी बच्ची को वापस पाकर उनके चेहरे खिल उठे। बच्ची के परिजनों द्वारा अपनी बच्ची को सकुशल पाकर गौतमबुद्धनगर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

#थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा गुमशुदा 05 वर्षीय बच्चे के परिजनों को तलाश कर बच्चे को सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया।

दिनांक 04/12/2022 को थाना इकोटेक-3 पुलिस को गश्त के दौरान हल्द्वानी मोड पर एक गुमशुदा बच्चा उम्र 05 वर्ष घूमता हुआ मिला जो अपने घर का पता नहीं बता पा रहा था। पुलिसकर्मियों द्वारा उक्त बच्चे को अपनी अभिरक्षा में लेकर आस-पास पूछताछ की गई जिसपर अथक प्रयास व आस-पास जानकारी करने के बाद पता चला की उक्त बच्चे के परिजन हल्द्वानी के रहने वाले है एवं यह बच्चा रास्ता भटककर हल्द्वानी मोड पर आ गया था। पुलिस द्वारा तत्काल बच्चे के परिजनों से सम्पर्क किया गया एवं बच्चे को सकुशल उनके सुपुर्द किया गया। अपने खोए बच्चे को सकुशल वापस पाकर परिजनों द्वारा गौतमबुद्धनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।